

प्रेस नोट

दिनांक 23.10.2020

“मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपद अमेठी के समस्त थानों पर “महिला हेल्प डेस्क” का किया गया शुभारम्भ ।

“मिशन शक्ति” अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद अमेठी में महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने व अपनी समस्याओं को निर्भीक होकर बताने तथा उनकी समस्याओं को सुनकर त्वरित गति से गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 23.10.2020 को थाना **गौरीगंज** में महिला हेल्प डेस्क का उदघाटन एवं शुभारम्भ जिलाधिकारी अमेठी श्री अरूण कुमार द्वारा किया गया । इस अवसर मुख्य विकास अधिकारी डा० अंकुर लाठर, अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक श्री दयाराम सरोज, क्षेत्राधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह व अन्य अधिकारी/कर्म० मौजूद रहे । थाना **जामो** में श्री घनश्याम तहसीलदार गौरीगंज, थाना **जायस** में श्री रमेश कुमार सिंह पूर्व ब्लाक प्रमुख बहादुरपुर, थाना **फुरसतगंज** में श्री भवानी दत्त दीक्षित जनप्रतिनिधि, थाना **संग्रामपुर** में श्री महाराज पुजारी कालिकन धाम, थाना **जगदीशपुर** में श्री दुर्गेश त्रिपाठी जिलाध्यक्ष भाजपा, थाना **शिवरतनगंज** में श्री अर्जुन सिंह भदौरिया अध्यक्ष प्रधान संघ, थाना **कमरौली** में श्रीमती आशा बाजपेयी महिला मोर्चा बीजेपी अध्यक्ष, **महिला थाना** में श्रीमती मंजूलता प्रधानाचार्य पं० दीनदयाल मेमोरियल आश्रम पद्धति स्कूल गौरीगंज, थाना **मुशीगंज** में विधायक प्रतिनिधि अमेठी श्री कुंवर अनन्त विक्रम सिंह, थाना **पीपरपुर** में ब्लाक प्रमुख भादर श्री कृष्ण कुमार जायसवाल, थाना **मुसाफिरखाना** में महिला मोर्चा मण्डल अध्यक्ष श्रीमती मूर्ता देवी, थाना **बाजारशुकल** में ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता पाल, थाना **मोहनगंज** में मा० विधायक तिलोई श्री मयंकेश्वर शरण सिंह व थाना **अमेठी** में विधायक प्रतिनिधि अमेठी श्री कुंवर अनन्त विक्रम सिंह द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत “महिला हेल्प डेस्क” का शुभारम्भ किया गया । इस अवसर पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थानाक्षेत्र के सम्मानित सभ्रान्त व्यक्ति, सामाजिक संगठन कार्यकर्ता, आमजन व स्कूल/कालेज की छात्राएं मौजूद रहे । समस्त थानों पर उपस्थित बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु जागरूक किया गया और 1090(वूमेन पावर लाइन), 181(महिला हेल्प लाइन), 108(एम्बुलेंस सेवा), 1076(मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन), 112(पुलिस आपातकालीन सेवा), 1098(चाइल्ड हेल्पलाइन), 102(स्वास्थ्य सेवा), आदि सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रत्येक थानों पर महिला शिकायतकर्ता के लिये स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी कि कोई भी महिला एवं बालिका अपनी शिकायत दर्ज करा कर उसकी प्राप्ति की पर्चा प्राप्त करें ।